



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1746]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2011/भाद्र 25, 1933

No. 1746]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2011/BHADRA 25, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2011

का.आ. 2087(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, —

(1) मद सं. (xvi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(xvi) डा. उमा टेकुर, निदेशक, आचार्य और प्रमुख, मेघजगुण (इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की विज्ञान, विभाग-मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई अवधि के लिए)।”
दिल्ली।

(2) मद सं. (xix) (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(xix)(क) डा. बी. एस. फोगाट, अपर पादप संरक्षण सलाहकार (इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की (केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति), अवधि के लिए)।”
पादप संरक्षण, करंतीन और भंडारण निदेशालय एनएच-IV,
फरीदाबाद।

[फा. सं. 19-6/2008-पी.पी.-1]

पंकज कुमार, सयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 301 (अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा उसमें संशोधन किए गए :—

- (i) सा.का.नि. 1216 तारीख 19 अगस्त, 1971,
- (ii) सा.का.नि. 478(अ), तारीख 10 अगस्त, 1979,
- (iii) का.आ. 848(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1989,
- (iv) का.आ. 528(अ), तारीख 19 जुलाई, 1993,

- (v) का.आ. 849(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 1995,
- (vi) का.आ. 346(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1997,
- (vii) का.आ. 70(अ), तारीख 20 जनवरी, 1998,
- (viii) का.आ. 132(अ), तारीख 24 फरवरी, 1999,
- (ix) का.आ. 807(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000,
- (x) का.आ. 1095(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2000,
- (xi) का.आ. 12(अ), तारीख 5 जनवरी, 2001,
- (xii) का.आ. 1167(अ), तारीख 23 नवंबर, 2001,
- (xiii) का.आ. 1025(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2003,
- (xiv) का.आ. 229(अ), तारीख 23 फरवरी, 2004,
- (xv) का.आ. 872(अ), तारीख 30 जुलाई, 2004,
- (xvi) का.आ. 1433(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004,
- (xvii) का.आ. 1080(अ), तारीख 29 जुलाई, 2005,
- (xviii) का.आ. 1674(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2007,
- (xix) का.आ. 395(अ), तारीख 26 फरवरी, 2008,
- (xx) का.आ. 2367(अ), तारीख 3 अक्टूबर 2008,
- (xxi) का.आ. 2912(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2008,
- (xxii) का.आ. 2146(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009,
- (xxiii) का.आ. 351(अ), तारीख 15 फरवरी, 2010,
- (xxiv) का.आ. 683(अ), तारीख 23 मार्च, 2010,
- (xxv) का.आ. 2285(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2010,
- (xxvi) का.आ. 2941(अ), तारीख 15 दिसम्बर, 2010 और
- (xxvii) का.आ. 1308(अ), तारीख 7 जून, 2011.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2011

S.O. 2087(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification, :—

(1) for item (xvi) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

“(xvi) Dr. Uma Tekur, Director, Professor and Head, Department of Pharmacology, Maulana Azad Medical College, New Delhi.	(For a Period of three years from the date of publication of this notification).”
--	--

(2) for item (xix) (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

“(xix) (a) Dr. B. S. Phogat, Additional Plant Protection Protection Adviser (Central Insecticide Board and Registration Committee), Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, NH-IV, Faridabad,	(For a Period of three years from the date of publication of this notification).”
---	--

[F. No. 19-6/2008-PP-I]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and subsequently amended by :—

- (i) G.S.R. 1216 dated the 19th August, 1971,
- (ii) G.S.R. 478(E) dated the 10th August, 1979,
- (iii) S.O. 848(E) dated the 25th October, 1989,
- (iv) S.O. 528(E) dated the 19th July, 1993,
- (v) S.O. 849(E) dated the 20th October, 1995,
- (vi) S.O. 346(E) dated the 24th April, 1997,
- (vii) S.O. 70(E) dated the 20th January, 1998,
- (viii) S.O. 132(E) dated the 24th February, 1999,
- (ix) S.O. 807(E) dated the 6th September, 2000,
- (x) S.O. 1095(E) dated the 7th December, 2000,
- (xi) S.O. 12(E) dated the 5th January, 2001,
- (xii) S.O. 1167(E) dated the 23rd November, 2001,
- (xiii) S.O. 1025(E) dated the 5th September, 2003,
- (xiv) S.O. 229(E) dated the 23rd February, 2004,
- (xv) S.O. 872(E) dated the 30th July, 2004,
- (xvi) S.O. 1433(E) dated the 31st December, 2004,
- (xvii) S.O. 1080(E) dated the 29th July, 2005,
- (xviii) S.O. 1674(E) dated the 28th September, 2007,
- (xix) S.O. 395(E) dated the 26th February, 2008,
- (xx) S.O. 2367(E) dated the 3rd October, 2008,
- (xxi) S.O. 2912(E) dated the 17th December, 2008,
- (xxii) S.O. 2146(E) dated the 21st August, 2009,
- (xxiii) S.O. 351(E) dated the 15th February, 2010,
- (xxiv) S.O. 683(E) dated the 23rd March, 2010,
- (xxv) S.O. 2285(E) dated the 15th September, 2010,
- (xxvi) S.O. 2941(E) dated the 15th December, 2010 and
- (xxvii) S.O. 1308(E) dated the 7th June, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2011

का.आ. 2088(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 79, तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, —

(1) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- "5. डा. बी. एस. फोगाट, अपर पादप संरक्षण सलाहकार सदस्य"।
(केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति),
पादप संरक्षण, करंतीन और भंडारण निदेशालय
एनएच-IV, फरीदाबाद।

(2) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याक रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- "6. डा. उमा टेकुर, निदेशक, आचार्य और प्रमुख, भेषजगुण सदस्य"।
विज्ञान विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली।

[फा. सं. 19-6/2008-पी.पी.-I]

पंकज कुमार, सयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 79 (अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा उसमें संशोधन किए गए :—

- (i) का.आ. 420(अ) तारीख 30 मई, 1997
- (ii) का.आ. 71(अ), तारीख 20 जनवरी, 1998,
- (iii) का.आ. 23(अ), तारीख 3 जनवरी, 2000,
- (iv) का.आ. 972(अ), तारीख 2 नवंबर 2000,
- (v) का.आ. 11(अ), तारीख 5 जनवरी, 2001,
- (vi) का.आ. 147(अ), तारीख 1 फरवरी, 2002,
- (vii) का.आ. 1024(अ), तारीख 5 सितंबर, 2003,
- (viii) का.आ. 873(अ), तारीख 30 जुलाई, 2004,
- (ix) का.आ. 1434(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2004,
- (x) का.आ. 1081(अ), तारीख 29 जुलाई, 2005,
- (xi) का.आ. 1675(अ), तारीख 28 सितंबर, 2007,
- (xii) का.आ. 396(अ), तारीख 26 फरवरी, 2008,
- (xiii) का.आ. 2368(अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2008,
- (xiv) का.आ. 2147(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009,
- (xv) का.आ. 352(अ), तारीख 15 फरवरी, 2010,
- (xvi) का.आ. 684(अ), तारीख 23 मार्च, 2010,
- (xvii) का.आ. 2325(अ), तारीख 22 सितंबर, 2010 और
- (xviii) का.आ. 2942(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2010

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2011

S.O. 2088(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification,—

(1) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

- | | | |
|----|--|----------|
| “5 | Dr. B.S. Phogat, Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticide Board and Registration Committee), Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, NH-IV, Faridabad. | Member”. |
|----|--|----------|

(2) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

- | | | |
|-----|---|----------|
| “6. | Dr. Uma Tekur, Director, Professor and Head, Department of Pharmacology, Maulana Azad Medical College, New Delhi. | Member”. |
|-----|---|----------|

[F.No. 19-6/2008-PP-I]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended by :—

- (i) S.O. 420(E), dated the 30th May, 1997,
- (ii) S.O. 71(E) dated the 20th January, 1998,
- (iii) S.O. 23(E) dated the 3rd January, 2000,
- (iv) S.O. 972(E) dated the 2nd November, 2000,
- (v) S.O. 11(E) dated the 5th January, 2001,
- (vi) S.O. 147(E) dated the 1st February, 2002,
- (vii) S.O. 1024(E) dated the 5th September, 2003,
- (viii) S.O. 873(E) dated the 30th July, 2004,
- (ix) S.O. 1434(E) dated the 31st December, 2004,
- (x) S.O. 1081(E) dated the 29th July, 2005,
- (xi) S.O. 1675(E) dated the 28th September, 2007,
- (xii) S.O. 396(E) dated the 26th February, 2008,
- (xiii) S.O. 2368(E) dated the 3rd October, 2008,
- (xiv) S.O. 2147(E) dated the 21st August, 2009,
- (xv) S.O. 352(E) dated the 15th February, 2010,
- (xvi) S.O. 684(E) dated the 23rd March, 2010,
- (xvii) S.O. 2325(E) dated the 22nd September, 2010, and
- (xviii) S.O. 2942(E) dated the 15th December, 2010.

34569/11-2